

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

सिस्टम टेंडर नं. 161976

कोरबा दिनांक 28.11.2024

फा.क. 200/2024

द्वितीय ई-निविदा आमंत्रण सूचना

कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा लोक निर्माण विभाग एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा भवन कार्य हेतु दिनांक 01.01.2015 एवं विद्युत हेतु दिनांक 01.06.2020 से प्रभावशील दर अनुरूपी पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ शेड्यूल अनुसार प्रतिशत दर पर ई-प्रोक्युरमेंट (E-Tendering) के माध्यम से निविदा प्रपत्र Form-A में निविदा आमंत्रित की जाती है:-

1. फिजिकल सबमिशन लिफाफा प्राप्त होने की अंतिम तिथि — 17.12.2024 सायंकाल से 3.00 बजे तक
2. निविदा खुलने की अंतिम तिथि — 17.12.2024 सायंकाल 4.00 बजे से

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि (लाख में)	धरोहर राशि (FDR/TDR)	कार्यावधि	निविदा प्रतिभागी शुल्क (डिमांड ड्राफ्ट)	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की तिथि
1	वार्ड क्र. 25 अंतगत मिनीमाता कन्या महाविद्यालय कोरबा के पीछे सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य (जिला खनिज न्यास मद)	20.00	15000/-	4 माह	750/-	वर्ग डी एवं प्रवर श्रेणी	17.12.2024 से

शर्त:-

1. निविदा दरे प्रचलित सी.एस.आर.से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे सी.एस.आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
2. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
3. इच्छुक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पाटर्नरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी, विगत 3 वर्षों का आयकर चुकता प्रमाण पत्र, पेन नम्बर, जी.एस.टी. निविदा प्रमाण पत्र एवं अमानत राशि के FDR/TDR की प्रति ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा, प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि रायपुर से पंजीकरण का कोड, निविदा प्रतिभागी शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं धरोहर राशि FDR/TDR, शपथपत्र का स्केन कापी ऑन लाईन सिस्टम पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 - अमानत राशि का वैध FDR/TDR, निविदा प्रतिभागी शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट एवं निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र की मूल प्रति लिफाफा में कार्य का नाम एवं अन्य विवरण अंकित कर केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक रामपुर कोसावाड़ी पिन- 495677 कोरबा के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को सायं 03:00 बजे के पश्चात् फिजिकल सबमिशन लिफाफा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 - निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूलप्रति में निर्धारित प्रारूप में वैध शपथपत्र (राशि रु. 100/- नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प) निविदा आमंत्रण दिनांक के पश्चात का, निविदा क्रमांक एवं कार्य का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।
 - अमानत राशि का FDR/TDR एवं निविदा प्रतिभागी शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिए प्रत्येक चल देयकों में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष के लिए एवं मरम्मत एवं संधारण मद को छोड़कर शेष कार्यों में 5 प्रतिशत परफार्मेंस सिक्क्यूरिटी की गारंटी के रूप में से 03 वर्ष के लिए रोकी जावेगी। सुरक्षा राशि एवं परफार्मेंस गारंटी राशि वापसी हेतु समयावधि की गणना कार्य पूर्णता तिथि से किया जायेगा। उक्त समयावधि में निर्माण कार्य की भौतिक स्थिति सही होने तथा सक्षम प्राधिकारी के संतुष्टि के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
5. जिन निविदाकारों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम, रायपुर से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिया हो वे निविदाकार ही निविदा हेतु पात्र होंगे।
6. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
7. ईट से संबंधित निर्माण कार्यों में फ्लाइ ईश ब्रिक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
8. प्रयुक्त लोहा का बिल एवं टेस्ट रिपोर्ट तथा प्रयुक्त सीमेंट का बिल संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. निविदा दरों असामान्य कमी प्रतीत होने पर सफल निविदा दाता से अनुबंध के पूर्व एस.ओ.आर. एवं निविदा दर की अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक एफ.डी.आर., पोस्ट ऑफिस, टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय होगा जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि समयावधि में जमा न करने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
10. निविदा अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
11. निविदा प्रपत्र फार्म -ए की कंडिका 11 Price Adjustment (एस्कलेशन) देय नहीं होगा।
12. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
13. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने अथवा निरस्त करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
14. उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत प्रति नगर पालिक निगम, कोरबा के साकेत भवन स्थित निर्माण शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं।
15. ठेकेदार द्वारा संपादित किए गए कार्यों के देयकों का भुगतान कार्य विशेष हेतु बजट आबंटन एवं राशि उपलब्ध होने पर किया जाएगा।
16. निविदा में सफल निविदाकार को ऐसे कार्य जिसकी अनुबंध राशि 10.00 लाख या उससे अधिक है, उनको प्रत्येक कार्यों हेतु पृथक से छ.ग. भवन और सन्निर्माण कर्मचार मण्डल का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा देयक भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।
17. कार्य क्रियान्वयन से संबंधित गुणवत्ता परीक्षण संबंधी रिपोर्ट पर होने वाले व्यय का वहन संबंधित ठेकेदार द्वारा किया जावेगा।
18. ठेकेदार को निर्माण कार्य के दौरान "निर्माण एवं अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016" में किये गए प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।


कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

प्रतिलिपि-

प्रोग्रामर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर को uad.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Date-Time Detail(s)

Seq. No.	Nagar Nigam Stage	Contractor Stage	Start		Expiry		Remarks
			Date	Time	Date	Time	
1	Release Tender		28.11.2024	15.00	28.11.2024	15.00	Release Tender
2		Bid Submission	28.11.2024	15.00	16.12.2024	17.30	
3		Physical Document Submission	28.11.2024	15.00	17.12.2024	15.00	
4	Tender Open		17.12.2024	16.00	--	--	



**EXECUTIVE ENGINEER
KORBA (CG)
For, Commissioner Korba (C.G.)**

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C G)

ABSTRACT

**Name of Work :- Construction of Samudayik Dhawan Bahlnd MinMata Girls Collogo
As Per Demanded By Bang Samaj Under Ward No. 26**

As per Sor :- Schedule of Rates Public Works Department [PWD BUILDING 01-01-2016]

S No	ITEM DESCRIPTION	N	L	B	H/D	Qty	Unit	Rate	Amount
1	Excavation for All Types and sizes of foundations, trenches and drains or for any other purpose including disposal of excavated stuff upto 1.5 m lift and lead upto 50m (at least 5m away from the excavated area), including dressing and leveling of pits In All Types of soils					121.68	cum	186.00	22510.80
2	Providing and filling in plinth with sand/ Crusher dust and hard moorum under floor in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering, including dressing etc complete					52.22	cum	371.00	19373.99
3	Filling from available excavated stuff (Excluding rock) in trenches, plinth, sides of foundation etc in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering with a lead upto 50 M and lift upto 1.5 M					121.68	cum	65.00	7909.20
4	Providing and laying nominal mix plain cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work. 1:3:6 (1 cement 3 coarse sand 6 graded stone Aggregate 40mm nominal size)					31.80	cum	2970.00	94440.06
	1:1½:3 (1 cement 1½ coarse sand 3 graded stone Aggregate 20mm nominal size)					14.47	cum	4073.00	58920.02
5	Providing and fixing form work including centring, shuttering, strutting, staging, propping bracing etc complete and including its removal at all levels, for Foundations, footings, bases of columns plinth beam, curtain wall in any shape and size and all type of wall below plinth level					123.80	sqm	139.00	17208.20
	Columns, Pillars, Piers and likes- rectangular or square in shape					79.20	sqm	297.00	23522.40
	Suspended floors, roofs, access platform, balconies (plain surfaces) and shelves (cast in situ)					173.23	sqm	235.00	40708.58

S No	ITEM DESCRIPTION	N	L	B	H/D	Qty	Unit	Rate	Amount
	Weather shade, chhajja, Cornices and mouldings								
	Beams, lintels, cantilevers & walls					44.04	sqm	294.00	12947.76
6	Providing and laying nominal mix reinforced cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work					83.20	sqm	202.00	16806.40
	1 1/2 : 3 (1 cement 1 1/2 coarse sand 3 graded stone Aggregate 20mm nominal size)								
						68.05	cum	4163.00	283279.66
7	Providing and placing in position reinforcement for R C C. work including straightening, cutting, bending, binding etc complete as per drawings including cost of binding wire in foundation and plinth all complete								
	Thermo-Mechanically treated bars FE 415					6804.70	kg	54.50	370856.15
	Extra for laying PCC/RCC of any grade in superstructure above plinth level for every floor or part thereof in addition to rate for foundation and plinth								
						54.40	cum	97.50	5304.29
8	7.5 Brick work with modular fly-ash lime bricks (FaLG Bricks) conforming to IS 12894-2002 of class designation 4.0 in foundation and plinth in								
	Cement Mortar 1:6 (1 cement 6 coarse sand)								
						97.27	Cum	3263.00	317398.54
9	Extra for brick work in superstructure above plinth level for every floor or part thereof in addition to rate for foundation and plinth								
						67.52	Cum	121.00	8169.92
10	Providing and laying vitrified floor tiles with double charge/ multi charge printing with water absorption less than 0.5% and conforming to IS 15622 of approved make in all colours and shades and size mentioned below (+/- 10mm), laid on 20mm thick cement mortar 1:4 (1 cement 4 coarse sand) including grouting the joints with white cement and matching pigments etc complete								
	Size 600x600mm								
						143.96	sqm	1151.00	165697.96


S.No	ITEM DESCRIPTION	N	L	B	H/D	Qty	Unit	Rate	Amount
12	Providing and fixing ceramic glazed wall tiles conforming to IS 15622 of approved make, colour, shades and size on wall and dados over 12 mm thick bed of cement Mortar 1 3 (1 cement 3 coarse sand) and jointing with grey cement slurry @ 3.3kg per sqm including pointing in white cement mixed with matching pigment complete								
	Size upto 200x300mm								
						32.76	sqm	587.00	19230.12
13	Providing and laying rectified ceramic glazed floor tiles of size 300x300mm and above conforming to IS 15622 of approved make, colour, shade laid on 20 mm thick Cement Mortar 1 4 (1 cement 4 coarse sand) including pointing the joints with white cement mixed with matching pigment etc., complete								
	Size 300x300mm								
						12.00	sqm	858.00	10296.00
	12.37 Chequered precast cement concrete tiles 22mm thick in footpath & courtyard jointed with neat cement slurry mixed with pigment to match the shade of tile including cleaning of joint etc complete on 20 mm thick bed of cement mortar 1 4 (1 cement 4 coarse sand)								
	12.37.2 Medium shade using approximately 50% white cement and 50% ordinary cement.								
						12.96	sqm	591.00	7659.36
14	15 mm thick Table rubbed polished Granite stone slab in risers and treads of steps skirting dado and pillars laid on 12mm (Average) thick base of cement mortar 1 3 (1 cement 3 coarse sand) and jointed with grey cement slurry including rubbing and polishing etc. complete (single stone is to be used for risers and treads of steps and width of stone for skirting and dado shall be equal to the height of skirting & dado and length of 1.0 m)								
	Granite stone grey/pink					6.75	sqm	1869.00	12615.75


S No	ITEM DESCRIPTION	N	L	B	H/D	Qty	Unit	Rate	Amount
15	Providing & laying 60mm thick precast interlocking concrete blocks of approved size (approx 305 sqcm) and shape, pattern, over 40 mm thick average complete coarse sand bed with joints of 3mm thick filled by fine sand including leveling with surface vibrator, tamping and sweeping etc. complete of minimum compressive strength of 250 kg/sq cm								
	Pigment Coloured (rubber mould) precast interlock concrete blocks					30.00	sqm	632.00	18960.00
16	Providing and constructing soak pit 1 20x1 20x1 20m filled with brickbats including S W drain pipe 100 mm diameter and 1 20 m long complete as per standard design					2.00	each	1709.00	3418.00
	Providing and fixing flush door shutters, conforming to IS 2202 (Part-I), decorative type core of block board construction with frame of first class hard wood and well matched teak ply veneering with vertical grains or cross bands and face veneers on both faces of shutters excluding hinges								
	30 mm thick (single leaf)					6.30	sqm	1832.00	11541.60
	Extra for double leaf shutter instead of single leaf					6.30	sqm	52.00	327.60
17	Providing and fixing steel door/ window with M S sheet 1mm thick, frame of angle iron, diagonal braces of angle/ flat iron of suitable size, 3 00 mm M.S. gusset plates at junctions and corners, all necessary fittings complete including applying a priming coat of red oxide zinc chromate primer					750.00	kg	75.00	56250.00
	Providing and fixing in position collapsible steel shutters with vertical channels 20x10x2mm and braced with flat iron diagonals 20x5mm size with top and bottom rails of T-iron 40x40x6mm with 38mm steel pulleys complete with bolts, nuts, locking arrangement stoppers, handles including applying a priming coat of red oxide zinc chromate primer.								
						7.20	sqm	3330.00	23976.00

S No	ITEM DESCRIPTION	N	L	B	H/D	Qty	Unit	Rate	Amount
	On new work (Two or more coats applied @ 1 43 ltr/ 10 sqm over					429.64	Sqm	56.00	24059.84
25	1422 Painting on new work (two or more coats) to give even shade with Satin synthetic enamel paint					73.80	Sqm	55.00	4059.00
26	Providing and fixing water closet squatting pan (Indian type W C. pan), 100mm sand cast Iron P or S trap, 10 litre low level P V C. flushing cistern (same colour) conforming to IS 7231, with flush bend and other fittings and fixtures complete including cutting and making good the walls and floors wherever required					2.00	each	2459.00	4918.00
	White Long pattern W C. pan of size 580 mm								
	18.4 Providing and fixing vitreous china water closet (European type W C pan) with white ISI * marked plastic seat and lid, 10 litre low level white P V C flushing cistern (same colour), conforming to IS 7231, with all fittings and fixtures complete including cutting and making good the walls and floors wherever required								
	White pedestal type					1.00	each	2882.00	2882.00
27	Providing and fixing vitreous china wash basin with C.I brackets, 32 mm C.P brass waste of standard pattern, including painting of brackets, cutting and making good the walls wherever required								
	White Size 550x450 mm					3.00	each	1430.00	4290.00
	18.13 Providing and fixing white vitreous china urinal basin with waste fitting as per IS 2556, and other couplings in C.P brass complete:								
	Flat back half stall urinal of size 460x380x250mm					3.00	each	1776.00	5328.00
28	Providing and fixing on wall face or under floor UV stabilized Unplasticised Rigid PVC pipes (single socketed) having 3.2mm wall thickness conforming to IS 13592 (4kg/sqcm) including required couplers, jointing with seal ring conforming to IS 5382 leaving 10 mm gap for thermal expansion etc complete								
	110 mm dia pipe					30.00	metre	267.00	8010.00

S No	ITEM DESCRIPTION	N	L	B	H/D	Qty	Unit	Rate	Amount
29	Providing and fixing on wall face UV stabilized Unplasticised - PVC moulded fittings/ accessories having 3 2mm wall thickness for Rigid PVC pipes conforming to IS 13592 (heavy) Jointing with sealant conforming to IS 5382 leaving 10 mm gap for thermal expansion								
	Tee/ Tee with door/ Bend 45°/ Bend 90°								
	110 mm					7.00	each	154.00	1078.00
	Nahani trap 110x75mm					5.00	each	90.50	452.50
30	Providing and fixing Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) pipes, having thermal stability for hot & cold water supply including all CPVC plain & brass threaded fittings i/c fixing the pipe with clamps at 1.00 m spacing. This includes jointing of pipes & fittings with one step CPVC solvent cement and the cost of cutting chases and making good the same including testing of joints complete as per direction of Engineer in Charge CONCEALED WORK including cutting chases and making good the walls etc.,								
	15 mm nominal outer dia Pipes					20.00	metre	133.00	2660.00
	25 mm nominal outer dia Pipes					20.00	metre	213.00	4260.00
31	Providing and fixing 15 mm nominal bore Brass bib/stop cock of approved quality								
	Bib cock (350 grams)					6.00	each	237.00	1422.00
	Stop cock (350 grams)					4.00	each	237.00	948.00
	Providing and fixing stainless steel drain jali of approved make/quality								
						8.00	each	51.00	408.00
32	Providing and fixing 15 mm nominal bore C.P. brass fittings of approved make and conforming to IS 8931 including C P brass extension if required.								
	Basin mixer pillar tap with spout (1000 grams)					3.00	each	1248.00	3744.00
33	Providing and placing on terrace (at all floor levels) polyethylene water storage tank ISI 12701 marked with cover and suitable locking arrangement and making necessary holes for inlet, outlet and overflow pipes but without fittings and the base support for tank					2000.00	litre	7.30	14600.00

Sl No	ITEM DESCRIPTION	N	L	B	H/D	Qty	Unit	Rate	Amount
34	Constructing masonry Chamber 60x60x75 cm, inside with modular well burnt clay bricks of 35 kg/cm ² in cement mortar 1:4 (1 cement 4 coarse sand) with C.I. surface box 100mm top diameter, 160 mm bottom diameter and 180 mm deep (inside) with chained lid and RCC top slab 1:2:4 mix (1 cement 2 coarse sand 4 graded stone aggregate 20mm nominal size) necessary excavation foundation concrete 1:5:10 (1cement 5 fine sand 10 graded stone aggregate 40 mm nominal size) and inside plastering with cement mortar 1:3 (1 cement 3 coarse sand) 12 mm thick finished with a floating coat of neat cement complete as per standard design					4.00	each	4644.00	18576.00
As per SOR Total Estimate Amount Rs.									1946652.33
For Electrification Work (Internal Electrification Work PWD Electrical Sor 01.06.2020)									53347.65
Net Ammount									1999999.98
Say Ammount Rs.									2000000.00


 Sub Engineer S.E.
 Municipal Corporation
 Korba (C.G.)


 Asst. Engineer
 Municipal Corporation
 Korba (C.G.)